

हास्यकीप कर्मणा- पांडी आस्ट्रिमिक निकटीव्या
परिप्रेक्षीत भैत्तिरुपा काली रुद्राणालयातील
आंतररात्रा उपचाराव्यय निष्ठाव्य कर्मणाची प्रसि-
पूर्णीवा कमता अवश्यक वाचिगिर्जावाहन

२० वार्षिक वर्णन

सांख्यिक वारेग विस्तृप

यात्रा निर्णय क्रमांक एसएफ/1091/3456/वीआर-३२०/१/आदेश-२

गंगालय फँटे 400 032, फिल्हे 14 जनेवारी 1993

- कार्य :-**

 - (1) शासन निर्णय, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1081/4907/पीएच-9-अ, दिनांक 19 अप्रैल 1983.
 - (2) शासन पुरकाल, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1081/4907/पीएच-9-अ, दिनांक 19 अप्रैल 1984.
 - (3) शासन निर्णय, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1086/3437/पीएच-9, दिनांक 30 जुलाई 1987.
 - (4) शासन निर्णय, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1086/4907/आरोग्य-9, दिनांक 1 अप्रैल 1987.
 - (5) शासन निर्णय, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1089/608/आरोग्य-9, दिनांक 12 अप्रैल 1989.
 - (6) शासन निर्णय, सर्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-1092/1692/ओआर-233/92/आरोग्य-7, दिनांक 15 अप्रैल 1992.

३०८

2. वा. नियमित्यरे सापेक्ष विनियोग अपेक्षित राखायत आंतरराष्ट्रीय उपचारार्थ पेतसेल्या विद्युतीय अलवी विप्रवाली विहित क. 10,000/- ची कमाल मर्यादा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रकरणानव्ये क. 20,000/- क्या एकूण अविनियोगला कृदिश्वर अवैद्य घासांच्यात भेज वाढे.

3. दो वर्षों के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का उपयोग नहीं कर सकते।

४. ई कांडगा शहर निवासी अवकाश, १९८० याचा वेळाज्ञापनानुसार अपरदत्त येतील. इस्थिन निर्णय अभ्यास आणला, दिलाफसंतुष्टीचे उपभोगात्मक संघर्षांची रु. ३०,०००/- अवृत्त अभ्यास याचिक्षणा अधीन राहून दास्तान निशांत्र राखणे एवढी - १०८/४९३७/प००-९-६, दिनांक १७ ऑक्टोबर १९८३ आणि शासन निर्णय इमारती - १०८८/६०८/ काठो९५-९, दिनांक ११ ऑक्टोबर १९८९ मध्ये विहित केलेल्या गोपनीयातील दृश्यानुसार अनुदोष उत्तरविण्यात याची. दिनांक १४ आणखाऱी १९९३ याची उपभोगात्मक रुद्ध घटाऱी रु. ३०,०००/- च्या कामात अवकिळद अधीन ग्रहन नियमानुसार काढली जाई.

१०. हा शास्त्रीय वित्त विभागाच्या संचाराने अपि त्याच्या अनीषकारिक संपर्क क्रमांक ४३४/९२/रोपा-५, दिनांक २५ मुख्येष, १९९२ अन्वये निर्माणात करण्यात येत आहे.

મધ્યાંગ્રામે રાજ્યપાલ ચીંદ્યા જાડેશાનુસાર બ નાથાને,

मा. ल. निकम्
सहाय्यत शास वेद अवर उचित.

二

२. भजनलयातील अहसी जिनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या विमिप्रथाकाळीत एव्हे प्रमुखांना सधर उपर्युक्त दिलेल्या असी घटावड्याची

विवरण देखने का लाभ उपलब्ध है।